

# धोखाधड़ी से अपनी सुरक्षा करें



निवेश धोखाधड़ी से बचने के **चार** तरीके:



## एक सूचित निर्णय लेने के लिए समय लें

यदि निवेश उचित होगा, तो आपको तुरन्त ही निवेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।



## किसी दूसरे व्यक्ति से राय लें

किसी योग्य पंजीकृत वित्तीय प्रतिनिधि, अधिवक्ता या लेखाकार से, अथवा ऑंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन (OSC) से **1-877-785-1555** पर सम्पर्क करें।



## जोखिमों और फीस को समझने के लिए खोजबीन करें

यह जानना सुनिश्चित करें कि निवेश कैसे काम करता है, और यह आपके वित्तीय लक्ष्यों से मेल खाता हो।



## पृष्ठभूमि जाँच करें

अपने वित्तीय प्रतिनिधि की पंजीकरण स्थिति की जाँच OSC के पास करें, अथवा ऑनलाइन खोज टूल का प्रयोग करें **CheckBeforeYouInvest.ca** (केवल अंग्रेज़ी)

# धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों (स्कैमर) तथा पहचान चोरी से अपनी सुरक्षा करने के छह तरीके।



## अवांछित ईमेल हटाएं

कोई भी वैध कम्पनी आपसे ईमेल द्वारा आपकी व्यक्तिगत सूचना की मांग नहीं करेगी।



## अपने बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड सूचना को सुरक्षित रखें

किसी भी व्यक्ति को अपना पासवर्ड ना बताएं। आपका खाता नम्बर लिखे हुए किसी भी कागज को फाड़कर नष्ट कर दें।



## खोए हुए या चोरी हुए क्रेडिट कार्ड की तत्काल रिपोर्ट करें

किसी गायब क्रेडिट कार्ड की आप जितनी जल्दी रिपोर्ट कर देंगे, आप उसके दुरुपयोग से उतना ही अधिक सुरक्षित रहेंगे।



## कभी भी फोन के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी ना प्रदान करें

यदि कोई व्यक्ति आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड कम्पनी से होने का दावा करे, तो फोन काट दें, और फोन बुक या उनकी वेबसाइट पर वर्णित नम्बर पर अपने वित्तीय संस्थान को कॉल करें, और उनसे पूछें कि क्या वह कॉल वैध थी।



## ऑनलाइन खरीदारी करते समय सावधान रहें

अपना क्रेडिट कार्ड नम्बर केवल उन्हीं सुरक्षित वेबसाइटों पर दर्ज करें, जो आपकी जानकारी में वैध हैं। साइट को आपकी क्रेडिट कार्ड सूचना को फाइल में रखने की अनुमति ना दें।



## प्रत्येक महीने अपने स्टेटमेन्ट की समीक्षा करें

यदि आप कोई ऐसा चार्ज / खर्च देखते हैं, जो आपने नहीं किया था, तो उसकी रिपोर्ट अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कम्पनी को तत्काल करें।

### Ontario Securities Commission

20 Queen St. W., 22<sup>nd</sup> Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8

Tel: 1-877-785-1555 Email: [inquiries@osc.gov.on.ca](mailto:inquiries@osc.gov.on.ca)

 [GetSmarterAboutMoney](https://www.facebook.com/GetSmarterAboutMoney)

 [@smarter\\_money](https://twitter.com/smarter_money)

[GetSmarterAboutMoney.ca](https://www.getsmarteraboutmoney.ca)



ONTARIO  
SECURITIES  
COMMISSION

